



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 29012025-260590
CG-DL-E-29012025-260590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946

No. 67]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025

फा. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 में, अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (1) में, "निदेशक (प्रौद्योगिकी)" पद के समक्ष, स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में "9*(2020)" अंकों के लिए, "10" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ख) स्तंभ (1) में, "सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी)" पद के समक्ष, स्तंभ (1) से (7) तक संबंधित पंक्ति और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ग) स्तंभ (1) में, "वरिष्ठ लेखा अधिकारी" पद के समक्ष, स्तंभ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टि में "वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्दों और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे, नामतः —
 "या वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;"
- (घ) स्तंभ (1) में, "लेखाकार" पद के समक्ष, स्तंभ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टि में, "वाणिज्य स्नातक" शब्दों के लिए, "वाणिज्य में स्नातक या सरकारी संगठनों में लेखा संबंधित कार्य में तीन वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी विषय में स्नातक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और
- (ङ) स्तंभ (1) में, "कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी" पद के समक्ष, स्तंभ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टि में, "वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे, नामतः—

"या

वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;

या

वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो;"।

विवेक चंद्र वर्मा, उपमहानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./923/2024-25]

नोट : मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 की संख्या 01) दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई), दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 को प्रकाशित किया गया।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2025

F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, in the Schedule, against the post of—

- (a) “Director (Technology)” in column (1), for the figures and brackets “9*(2020)” in the corresponding entry in column (2), the figures “10” shall be substituted;
- (b) “Assistant Director General (Technology) in column (1), the corresponding row and the entries in columns (1) to (7) shall be omitted;
- (c) “Senior Account Officer” in column (1), after the words “With five years of regular service in the Pay Matrix Level 8” in the corresponding entry in column (6), the following words and figure shall be inserted, namely:—
“OR With six years of regular service in the Pay Matrix Level 7”;
- (d) “Accountant” in column (1), for the words “Graduate in Commerce” in the corresponding entry in column (6), the words “Graduate in Commerce OR Graduate in any stream with three years’ experience in Account related work in Government organisations” shall be substituted; and
- (e) “Junior Translation Officer” in column (1), after the words “With three years of regular service in the Pay Matrix Level 5” in the corresponding entry in column (6), the following words and figures shall be inserted, namely:—

“OR

With five years of regular service in the Pay Matrix Level 4

OR

With seven years of regular service in the Pay Matrix Level 3”.

VIVEK C. VERMA, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./923/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 1 of 2020), dated the 21st January, 2020 and last amended *vide* notification number A-12013/ 13/RR/2016-UIDAI (E), dated the 15th October, 2024, published on the 17th October, 2024.